



## G. K. CONSULTANTS LIMITED

PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING  
Web: gkconsultantsltd.com, CIN: L74140DL1988PLC034109  
302, G. K. HOUSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH,  
NEW DELHI-110065. INDIA  
PHONE : 26489299, 26489431 FAX : 011-26489299  
E-mail : akg\_gkcl@yahoo.co.in

CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT,  
BSE Limited,  
14<sup>th</sup> Floor,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001

**Sub.: Compliance under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Reg.: G. K. CONSULTANTS LIMITED**

Respected Sir,


Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith the copy of advertisement published in “Financial Express” (English) and “Jansatta” (Hindi) both dated 14<sup>th</sup> day of August, 2021 with regard to Submission of unaudited financial results for the quarter ended 30.06.2021.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

**For G. K. CONSULTANTS LIMITED**

  
(CS. SHILPA VERMA)  
COMPANY SECRETARY  
Mem No. : FCS 10105

**Date : 14.08.2021**



**JOHAL INVESTMENTS LTD.**  
 CIN: U67120DL1990PLC209682 RBI Registration No.: B-14.03253  
 RZF1, Shop No.5, Vijay Enclave, Shiv Main Market, New Delhi-110045 Website: www.jifinance.com

**NOTICE REGARDING POSSESSION U/S 13(4) OF SARFAESI ACT 2002**

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002, a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The Borrower(s)/Applicant (s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Applicant (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account.

The Borrower(s)/Applicant (s) in particular and the public in general are hereby cautioned, not to deal with property and any dealings with the property will be subject to the charge of the JOHAL INVESTMENTS LTD. for an amount and interest thereon. The Borrower(s)/Applicant (s), Guarantor(s) attention is invited to provision of sub section 8 of Section 13 of the Act in respect of time available to the secured assets.

S. No.	Loan Account No.	Name of Borrower(s)/ Applicant (s) & Co-borrower(s)/ Co-applicant(s) & Guarantor(s)	Description of the property mortgaged/ charged	Date of demand notice	Date of Possession	Amount outstanding (as per notice U/s-13(2), SARFAESI)
1.	JIL/AUG 29/ 2018-1 030	1. Mr. Arun Kumar (Applicant) 2. Mrs. Savita Devi (Co-applicant)	RZ D-64, Second Floor, Plot no. 64, Khasra no. 13/20, Revenue estate of Village Dabri, Abadi Known as Colony Raghu Nagar, New Delhi 110045	09.05.2021	10.08.2021	29,50,115.00/- (in words Rupee Twenty Nine lac Fifty thousand one hundred Fifteen only) with further interests, expenses and other charges etc.

Date: 14-08-2021  
 Place: New Delhi

Authorised Signatory  
 Johal Investments Ltd.

**MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED**  
 Regd. Office:- 5th Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019  
 CIN: L74899DL1985PLC019749

Extract of Statement of unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2021

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE			
		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		unaudited	audited	unaudited	audited
1	Total Income	1,675.57	1,035.04	103.05	2,386.49
2	Net Profit/(Loss) for the period after tax	198.01	59.59	38.86	246.53
3	Total Comprehensive Income for the Period	347.53	115.77	56.96	320.26
4	Equity Share Capital (Paid-up) (PV of Rs. 10/- each)	914.02	914.02	914.02	914.02
5	Reserves excluding revaluation reserves (as shown in balance sheet of previous year)	-	-	-	390.27
6	Earnings Per Share - Basic/ Diluted (Rs. per equity share)	2.17	0.65	0.43	2.70
<b>CONSOLIDATED</b>					
1	Total Income	2,140.23	1,349.77	1,71.26	3,052.64
2	Net Profit/(Loss) for the period after tax	212.80	12.39	29.29	200.33
3	Total Comprehensive Income for the Period	362.32	162.97	47.39	274.06

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated financial results in prescribed format are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website www.meocom.in.  
 2. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) from 1<sup>st</sup> April, 2017 (transition date April 01, 2016) and accordingly, these financial results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.  
 3. The figures of the previous period(s)/year have been regrouped/ restated wherever considered necessary.

For Meocom Capital Markets Ltd  
 Sd/-  
 Vijay Mehta  
 Managing Director  
 DIN: 0067151

Place: New Delhi  
 Date: 13-Aug-21

**KUWER INDUSTRIES LIMITED**  
 CIN: L74899DL1993PLC056627

Registered office: D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110025  
 Email ID- Investor.kuwer@gmail.com ; Website: www.kuwer.com  
 Tel. No.: 0120-2560688

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2021

Sr. No.	Particulars	Amount In Lakh (except EPS)			
		Quarter ended on		Corresponding Quarter ended on	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1412.10	5680.03	1110.45	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	46.79	26.36	10.59	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	46.79	26.36	10.59	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	45.45	39.30	10.16	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	45.45	39.30	10.16	
6	Equity Share Capital (Rs. 10 per share)	907.61	907.61	907.61	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	726.27	771.71	791.29	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic :	0.50	0.41	0.11	
	2. Diluted :	0.50	0.41	0.11	

Notes:  
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) at mentioned URL: https://www.bseindia.com/india-data/corporate/fin/fin/42f5a054-b85f440d-82ed-e1d798725534.pdf  
 b) The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 13.08.2021.

For Kuwer Industries Limited  
 Sd/-  
 Jagdish Chandra  
 (Company Secretary)

Place: New Delhi  
 Date: 13.08.2021

**SBEC SUGAR LIMITED**  
 CIN: L15211UP1991PLC016166

Regd. Off: Village Loyal Malakpur, Thasli Baraut, District: Baghpat, Uttar Pradesh-206611  
 Tel.: 01234-259206  
 E-mail: Investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2021

Sr. No.	Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		3 Months ended 30 June, 2021		Year ended 31 March, 2021		Corresponding 3 Months ended 30 June, 2020		3 Months ended 30 June, 2021		Year ended 31 March, 2021		Corresponding 3 Months ended 30 June, 2020	
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	15,331.90	57,013.84	12,312.57	16,214.79	58,069.79	12,553.96						
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(855.15)	(2,112.24)	(328.56)	(314.95)	(2,714.76)	(457.84)						
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(855.15)	(2,112.24)	(328.56)	(428.74)	(2,714.76)	(457.84)						
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(855.15)	(2,112.24)	(328.56)	(428.74)	(2,714.76)	(457.84)						
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(854.93)	(2,111.39)	(335.96)	(428.72)	(2,714.67)	(466.26)						
6	Equity Share Capital	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39						
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-						
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)												
	a Basic	(1.79)	(4.43)	(0.69)	(0.90)	(5.70)	(0.96)						
	b Diluted	(1.79)	(4.43)	(0.69)	(0.90)	(5.70)	(0.96)						

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsugar.com  
 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on 13th Aug, 2021  
 3. The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules (As amended).

By order of the Board  
 For SBEC Sugar Limited  
 Sd/-  
 Umesh Kumar Modi  
 Chairman & President  
 DIN: 00002757

Place: Zurich  
 Date: 13th Aug., 2021

**SINTEX INDUSTRIES LIMITED**  
 REGD. OFFICE:- Kabit, Gujarat-382 721, \* Website: www.sintex.in, EMail: share@sintex.co.in CIN: L17110GJ1931PLC00454 Tel.No. (02764)-253000  
 (₹ In Crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2021 (Unaudited)	Quarter ended 30/06/2020 (Unaudited)	Year ended 31/03/2021 (Audited)
<b>(A) Extract of Consolidated Financial Results</b>				
1.	Total income from operations (Net)	487.49	145.31	1,756.77
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)#	(169.46)	(282.06)	(879.35)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(169.46)	(282.06)	(1,305.99)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(169.35)	(282.06)	(1,306.41)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(169.35)	(282.06)	(1,306.92)
6.	Equity Share Capital	59.92	59.41	59.92
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	1,820.38
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	(2.83) (2.83)	(11.93) (11.93)	(21.96) (21.96)
<b>(B) Key numbers of Standalone Financial Results</b>				
a.	Total income from operations (Net)	476.72	152.60	1,744.16
b.	Net Profit/(Loss) Before Tax	(171.29)	(707.92)	(1,301.97)
c.	Net Profit/(Loss) After Tax	(171.29)	(707.89)	(1,301.82)

Notes:  
 1. The Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results were reviewed and approved by the Interim Resolution Professional on 13-08-2021.  
 2. Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.  
 3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Unaudited Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at www.sintex.in.  
 4. A Company under the Corporate Insolvency Resolution Process by Honourable National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench ordered dated 06.04.2021  
 5. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Date: August 13, 2021  
 Place: Ahmedabad

For SINTEX INDUSTRIES LIMITED  
 PINAKIN SHAH (Interim Resolution Professional)

**JOHN OAKAY AND MORAN LIMITED**  
 REGD. OFFICE: Office No 4 FF, CSC Pocket, Market Near Punjab National Bank Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091  
 CIN: L15549DL1962PLC063726  
 Tel.: 0120-2659155, E-Mail: oakaymohan@gmail.com, Website: www.oakaymohan.in

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2021

S. No.	Particulars	(₹ In Lakhs)			
		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	310.94	614.96	194.39	1,373.96
2	Profit/(Loss) (before Tax and Exceptional items)	5.08	63.80	(51.67)	107.67
3	Profit/(Loss) (before tax (after Exceptional items))	5.08	63.80	(51.67)	107.67
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	3.80	44.33	(39.63)	80.72
5	Total Comprehensive Income	8.51	56.61	(29.95)	116.04
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/Each)	48.38	48.38	48.38	48.38
7	Total Reserves	-	-	-	1,704.17
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/ Each) Not annualised in Rs.				
	a Basic	0.79	3.18	(8.00)	16.68
	b Diluted	0.79	3.18	(8.00)	16.68

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.moran.in and on Company's website at www.oakaymohan.in  
 2. The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings held on 13th August, 2021.  
 3. The figures of the Quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.  
 4. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the results of the company.

For and on behalf of the Board  
 For John Oakay And Moran Limited  
 Sd/-  
 Sanjeev Bawa  
 Managing Director  
 DIN 0363427

Place: New Delhi  
 Date: 13th August, 2021

**G. K. CONSULTANTS LIMITED**  
 Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2021

PARTICULARS	(₹ In Lakhs)			
	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income From operation (net)	24.65	335.14	35.21	472.19
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	13.55	68.13	-35.51	-52.43
Net Profit/(Loss) for the period after tax	13.55	68.13	-35.51	-52.43
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	133.95	120.40	172.83	120.40
Earnings Per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.)	0.26	1.28	-0.67	-0.99
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.) (EPS for the period not annualised)	0.26	1.28	-0.67	-0.99

Notes:  
 1. The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13<sup>th</sup> Day of August, 2021.  
 2. No provision of tax has been made for the interim period in the books of accounts.  
 3. The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website www.gkconsultantsltd.com.

By order of the Board  
 (Divya Malini Gupta)  
 Director  
 (DIN : 00006225)

Place: New Delhi  
 Date: 13.08.2021

**CORDS™ CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED**  
 Registered Office: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Near Okhla Industrial Area Phase-II, Old Ishtar Nagar, New Delhi-110026  
 Tel: 011-40551200 \* Fax: 011-40551280/81 \* E-mail: cci@cordscable.com  
 Website: www.cordscable.com \* CIN: L74999DL1991PLC046092

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30<sup>th</sup> June, 2021

Particulars	(Amount Rs In Lakhs)				
	Quarter Ended		Year Ended		
	30/06/2021	31/03/2021	30/06/2020	31/03/2021	
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	
1 Total income from operations	8866.51	10120.28	4949.75	32474.60	
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	198.79	256.78	28.44	619.08	
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	198.79	256.78	28.44	619.08	
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	145.16	192.46	12.40	435.53	
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	146.66	207.88	9.28	441.59	
6 Equity Share Capital (Paid up) (Face Value of Rs 10/- each)	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	
7 Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)					
	a) Basic	1.13	1.61	0.07	3.42
	b) Diluted	1.13	1.61	0.07	3.42

Notes:  
 i) The above unaudited standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 13th August, 2021.  
 ii) The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review on these results and the results are being published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
 iii) The above is an extract of the detailed format of the unaudited standalone financial results for Quarter ended on 30<sup>th</sup> June 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and on the Company's website, (www.cordscable.com).  
 iv) The Company is operating in a single segment as defined in Ind AS-108, Hence segment reporting is not applicable to the Company.  
 v) The company does not have any other exceptional item to report for the above periods.  
 vi) The standalone results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and in terms of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015  
 vii) During the quarter ended 30th June, 2021, the Company's performance was not adversely impacted by the Covid pandemic. There can be future business uncertainties depending on development in relation to the pandemic, which could include market downturns, supply constraints and commodity cost volatility.  
 viii) Figures of the quarter ended 31st March, 2021 are the balancing figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.  
 ix) The figures of previous quarters / year are reclassified, regrouped and rearranged wherever necessary so as to make them comparable with current period's figures.

By order of the Board  
 For Cords Cable Industries Limited  
 Sd/-  
 Naveen Sawhney  
 (Managing Director)  
 DIN: 06893764

Place: New Delhi  
 Date: 13.08.2021

**B J DUPLEX BOARDS LIMITED**  
 CIN : L21090DL1995PLC066281  
 Regd. Office: H. No. 83, T/F CHAWRI BAZAR, Delhi -110006  
 Email Id: admin@bjduplexboard.com; Website: www.bjduplexboard.com  
 Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the First Quarter Ended June 30, 2021

Particulars	(In Lacs)		
	Quarter ended		Year ended
	30.06.2021	31.03.2021	31.03.2021
	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations	-	0.02	0.07
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.07)	(0.05)	(2.92)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.07)	(0.05)	(2.92)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.07)	(0.05)	(2.92)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(0.07)	(0.05)	(2.92)
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	37.66	37.66	37.66
Other Equity	-	-	(109.37)
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic :	0.00	0.06
	2. Diluted:	0.00	0.06

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited standalone financial Results for the First quarter and Three Months ended on June, 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the First quarter and Three Months ended June, 30, 2021 is available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and Company's website (www.bjduplexboards.com).  
 2. Previous year' period figures have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.



**SKYLINE INDIA LIMITED**  
 Reg. Office: 15A, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055  
 CIN: U51909DL1999PLC075875 Email: skylineindia2@gmail.com  
 Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.com

Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2021 (Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended on		Year Ended	
		30-Jun-21	31-Mar-21	30-Jun-20	31-Mar-21
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	9.65	2.71	0.70	8.61
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	(0.92)	(45.91)	(5.73)	(70.06)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(0.92)	(45.91)	(5.73)	(70.06)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(0.92)	(45.91)	(5.73)	(70.06)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	398.26	398.26	398.26	398.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(216.15)	(216.15)	(146.15)	(216.15)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-0.02	-1.15	-0.14	-1.76
	Diluted:	-0.02	-1.15	-0.14	-1.76

Notes:  
 1. The above unaudited financial results for quarter ended on June 30, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on AUGUST 13, 2021 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on the same day.  
 2. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review" of the financial results for quarter ended on June 30, 2021.  
 3. The Company has transitioned to IND AS with effect from April 01, 2018. This statement of unaudited results for the quarter ended June 30, 2021 is in compliance with Indian Accounting Standards (IND AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. Consequently, results for the quarter ended June 30, 2021 have been restated to comply the IND AS to make them comparable.  
 4. The Company has single reportable segment as defined in Accounting Standard 17, therefore segment reporting is not applicable to the Company.  
 5. Figures of previous period have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current year classification.  
 6. EPS is calculated in accordance with Accounting Standard 20 issued by ICAI.

For Skyline India Limited  
 Sd/-  
 (Rajesh Kumar Singh)  
 Managing Director  
 DIN: 0642046

Place: New Delhi  
 Date: 13.08.2021

**PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING**  
**आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय : इंडियन कम्प्लाइड, वेगवत, मुजफ्फरनगर-251004  
 शाखा कार्यालय : सी-17, सेक्टर-3, नोएडा, यूपी

**परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (पूर्ववर्त) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)**  
**कच्चा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए)**

जैसा कि, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिनिधीकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (पूर्ववर्त) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने सार्वजनिक अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना दिनांक 15.05.2021 जारी कर अधिभारक रेनुका शर्मा एवं श्री अजय शर्मा को उक्त सूचना की प्रतियों की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख छियालीस हजार दो सौ बयानवे एवं अड़तीस पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधिभारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अधिभारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 09 अगस्त 2021 को अपोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपोहस्ताक्षरी ने वहां नीचे वर्णित संघर्ष का कच्चा कर दिया है। विशेष रूप से अधिभारक को आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ये वहां वर्णित संघर्ष का व्यवसाय न करे तथा इन संघर्षों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बनाया रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख छियालीस हजार दो सौ बयानवे एवं अड़तीस पैसे मात्र) तथा उस पर व्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के धारण के अधीन होगा। अधिभारक का ध्यान प्रतिभूति परिस्थितियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (6) के प्राकानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अवल सम्पत्ति का विवरण**  
 मुद्रित नं. सी-1908, ब्लाक-बी, भागन 1290 वर्ग फुट, 19वां प्लॉट, ओझारीस रोड, नोएडा, यूपी-201308  
 प्लॉट नं. एचआरए 12ए, सुखनुर साइट-सी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा, यूपी-201308  
 की सम्पत्ति के सभी भाग एवं पारसल दिनांक 09.08.2021

अधिकृत अधिकारी  
 आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड  
 स्थान : यूपी, नोएडा

**G. K. CONSULTANTS LIMITED**  
 Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2021** (Rs. In Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended			
	30.06.2021		31.03.2021	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income From operation/net	24.65	335.14	35.21	472.19
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	13.55	68.13	-35.51	-52.43
Net Profit/(Loss) for the period after tax	13.55	68.13	-35.51	-52.43
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	133.95	120.40	172.83	120.40
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.))	0.26	1.28	-0.67	-0.99
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.)) (EPS for the period not annualised)	0.26	1.28	-0.67	-0.99

NOTES:  
 1. The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13<sup>th</sup> Day of August, 2021.  
 2. No provision of tax has been made for the interim period in the books of accounts.  
 3. The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website www.gkconsultantsltd.com.

By order of the Board  
 (Divya Malini Gupta)  
 Director  
 DIN: 00006225

Place: New Delhi  
 Date: 13.08.2021

**नदी प्रबंधन के लिए विधेयक लाएगी सरकार**  
 नई दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा)।  
 देश में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण नुकसान पर विचारों के बीच जल शक्ति मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया कि एकीकृत नदी घाटी प्रबंधन के तहत नदी प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के मौजूदा प्रावधानों के तहत 'नवी प्रबंधन विधेयक' तैयार किया जा रहा है। लोकसभा में पांच अगस्त को पेश जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। समिति ने पूछा था कि क्या जल संसाधन, नदी विकास विभाग ने 'बाढ़ निंत्रण' विषय को संविधान की समवर्ती सूची के तहत लाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसके जवाब में विभाग ने कहा- बाढ़ प्रबंधन में केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 'जल संसाधन विकास' विषय को समवर्ती सूची में लाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने बताया, 'जल शक्ति मंत्रालय ने संसद सूची की प्रविष्टि 56 के तहत नदी प्रबंधन विधेयक बनाने की पहल की है।' यह पूछे जाने पर कि क्या बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने और उसे निवारित करने के लिए किसी अंतर मंत्रालयी अध्ययन समूह का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा, '2020-2023 की अवधि में पूरे देश में बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्य और नदी प्रबंधन कार्यक्रमों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु नीति तैयार करने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।' इस समिति में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और केरल के मुख्य सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2019 में इस समिति के गठन के बाद से फरवरी 2020 और मई 2020 में इसकी दो बैठकें हुई हैं।

**शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड**  
 सीआईएन: L21012UP1986PLC007671  
 पंजीकृत कार्यालय: 4.5 कि.मी., भोपा रोड, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश  
 ईमेल: shakumbhripaper@gmail.com | वेबसाइट: www.shakumbhripulp.com | संपर्क नंबर: 9548493030

**30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम** (स्टैंडलोन) (रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	30-जून-21	31-मार्च-21	30-जून-20	मार्च 31, 2021
		3 महीने (अनअंकेक्षित)	3 महीने (अंकेक्षित)	3 महीने (अनअंकेक्षित)	12 महीने (अंकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय	2428.77	2519.23	1064.74	7414.40
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले और असाधारण)	54.74	171.23	7.84	228.33
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	54.74	171.23	7.84	228.33
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	39.38	104.73	5.80	170.59
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	40.49	107.37	7.08	173.36
6	इकटिरी शेयर पूंजी	385.50	385.50	385.50	385.50
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	718.36
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) 1. बेसिक; 2. डायल्यूटेड:	1.02 1.02	2.72 2.72	0.15 0.15	4.43 4.43

नोट्स:  
 1. उपरोक्त सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट [www.shakumbhripulp.com](http://www.shakumbhripulp.com) पर उपलब्ध है।  
 2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 13.08.2021 को आयोजित बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसका ऑडिट किया है।

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड  
 हस्ता/-  
 गिरीश कुमार अग्रवाल  
 निदेशक  
 स्थान : मुजफ्फरनगर  
 दिनांक : 13-08-2021  
 DIN: 06457199

**Best Agrolife Limited**  
 CIN:L74110DL1992PLC116773  
 Regd. Office: S-1A, Ground Floor, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026  
 Corporate office: B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026  
 Ph: 011-45803300 | Email: info@bestagrolife.com | Website: www.bestagrolife.com

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021** (Rs. In Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	30-06-2021		31-03-2021		30-06-2020		31-03-2021		30-06-2021		31-03-2021	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	34,456.22	20,812.94	36,290.62	90,544.50	34,456.22	20,812.94	36,290.62	90,544.50	34,456.22	20,812.94	36,290.62	90,544.50
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57	3,482.34	3,464.83	958.08	5,078.57
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,578.12	2,526.76	724.20	3,706.62	2,578.12	2,526.76	724.20	3,706.62	2,578.12	2,526.76	724.20	3,706.62
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	2,589.80	2,535.06	1,530.88	4,609.62	2,589.80	2,535.06	1,530.88	4,609.62	2,589.80	2,535.06	1,530.88	4,609.62
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21	2,203.21
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) on Net Profit (Not annualised) - Basic and Diluted	11.70	11.47	3.29	16.82	11.77	11.47	3.29	16.82	11.77	11.47	3.29	16.82

NOTES:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarter ended financial results are available on the website of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and also on the Company's website: [www.bestagrolife.com](http://www.bestagrolife.com).  
 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th August, 2021. These results have been subjected to Limited review by the statutory Auditor.

For Best Agrolife Limited  
 Sd/-  
 Vimal Kumar  
 Managing Director  
 DIN: 01260082

Place: New Delhi  
 Date: August 13, 2021

**अग्रवाल ड्युप्लेक्स बोर्ड लिमिटेड**  
 CIN: L99999DL1984PLC019052  
 पंजी कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2 कम्प्लेक्स सेंटर, रोड नंबर 44 के साथ, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034  
 बॉर्ड: +91 11 47527700 | फेक्स: +91 11 47527777 | ई-मेल: agarwalduplex1984@gmail.com | वेबसाइट: www.agarwalduplex.net

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम** (स्टैंडलोन) (रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	30-जून-21	30-जून-20	31-मार्च-21	31-मार्च-21
		3 महीने अनअंकेक्षित	3 महीने अनअंकेक्षित	3 महीने अंकेक्षित	12 महीने अंकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय	3882.84	1486.95	4062.13	12731.74
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	41.27	32.44	-12.97	85.31
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	41.27	32.44	-12.97	85.31
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	30.88	24.25	-23.89	48.11
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	30.88	24.25	-27.05	70.62
6	इकटिरी शेयर पूंजी	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) वार्षिक आधार पर	1417.2	1346.58	1,417.20	1,417.20
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) 1. बेसिक; 2. डायल्यूटेड:	0.02 0.02	0.18 0.18	-0.02 -0.02	0.36 0.36

नोट्स:  
 1. उपरोक्त सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.nse.in](http://www.nse.in)) पर उपलब्ध है।  
 2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 13.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है और इन वित्तीय परिणामों पर एक अंतर्निहित रिपोर्ट व्यक्त की है।

अग्रवाल ड्युप्लेक्स बोर्ड लिमिटेड  
 हस्ता/-  
 नीरज गोयल  
 प्रबंध निदेशक  
 स्थान : दिल्ली  
 दिनांक : 13/08/2021  
 DIN: 00017498

**सवारे ट्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड**  
 सीआईएन: L51909DL1990PLC040761  
 पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, गोपाल टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008  
 वेबसाइट: [www.savaretrade.com](http://www.savaretrade.com) | ई-मेल: [narendermakkar@yahoo.com](mailto:narendermakkar@yahoo.com)  
 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैंडलोन अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

**रु. लाख में**

विवरण	स्टैंडलोन			
	समाप्त 3 महीने 30.06.2021	समाप्त 3 महीने 31.03.2021	समाप्त त्रैमासिक तिमाही 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2021
	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालन से कुल आय	0.80	3.35	1.50	8.00
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	0.06	2.16	0.32	0.14
कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	0.06	2.16	0.32	0.14
इकटिरी शेयर पूंजी	2.49	2.49	2.49	2.49
अंतरिक्ष (पूर्व वर्ष के तुलना पत्र पंजीकृत गैर पुनर्मुल्यांकन अंतरिक्ष छोड़कर)	-	-	-	-
अग्र प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व (रु. 10/- प्रति का) पूरा एवं तरल)	0.02	0.87	0.13	0.06
अग्र प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) पूरा एवं तरल)	0.02	0.87	0.13	0.06

नोट्स:  
 1. उपरोक्त परिणामों को ऑडिट कर्मियों द्वारा समीक्षा की गई तथा 12.08.2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।  
 टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अधिनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.cseindia.com](http://www.cseindia.com)) तथा कंपनी की वेबसाइट [www.savaretrade.com](http://www.savaretrade.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से  
 सगरे ट्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिये  
 नोएनर कुमार शर्मा  
 निदेशक  
 स्थान: दिल्ली  
 दिल्ली: 12.08.2021  
 DIN:00026857

**कोसी नदी में दो युवकों की डूबने से मौत**  
 देहरादून, 13 अगस्त (भाषा)।  
 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मोहान क्षेत्र के पास कोसी नदी में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक बृहस्पतिवार को जन्मदिन का जश्न मनाने नदी के किनारे गए थे और इसी दौरान नहाते समय तेज बहाव में बह गए। युवकों के बहने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश अभियान चलाया, देर रात दोनों के शव बरामद कर लिए गए। युवकों की पहचान पिरू मदार क्षेत्र के रहने वाले सुमित (15) और महेंद्र (19) के रूप में की गई है।

**SALORA**  
**SALORA INTERNATIONAL LIMITED**  
 CIN:L74899DL1968PLC004962  
 Regd. Off.: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020,  
 Visit us at [www.salora.com](http://www.salora.com)

**EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021** (Rs. In lacs)

Particulars	Quarter Ended			
	30.06.2021		31.03.2021	
	Unaudited	Audited (Refer Note No. 5)	Unaudited	Audited
Total Income from continuing operations	1,744.86	2,924.06	834.18	8,860.84
Profit/(loss) before tax from continuing operations	(264.37)	(321.27)	(315.36)	(988.05)
Profit/(loss) before tax from discontinued operations (including exceptional item) (refer Note No. 3)	-	13.05	10.37	(566.71)
Profit/(Loss) after Tax	(199.23)	(242.22)	(228.61)	(1,141.11)
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(199.78)	(247.18)	(227.68)	(1,143.28)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet	-	-	-	3,470.12
Earning per Share (face value of Rs. 10/- each)	-	-	-	-
Basic & diluted earning per share including continuing & discontinued operations	(2.26)	(2.75)	(2.60)	(12.96)

Notes:  
 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 12th August 2021 & these results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.  
 2. The Company's operations were impacted by the second wave of the Covid-19 pandemic and the slight recovery was seen in the month of June 30, 2021. The company expects to recover the carrying value of assets, based on its assessment of the business/economic conditions and will continue to evaluate the pandemic-related uncertainty and update its assessment.  
 3. Wind Energy segment discontinued during the current quarter and has been disclosed as discontinued